

उत्तराखण्ड शासन  
संस्कृत शिक्षा अनुभाग  
संख्या- 493 / XLII-1 / 2018-02(05)2012  
देहरादून: दिनांक 05 सितम्बर, 2018  
अक्टूबर

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-186 / XLII-1 / 2013-2(05) / 2012, दिनांक 18.04.2013 के क्रम में उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति को एतद्वारा निम्नवत् पुर्नगठित किया जाता है:-

1. मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड - अध्यक्ष
2. डा० प्रेमचन्द्र शास्त्री, उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार - उपाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन - सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि - सदस्य
5. निदेशक, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विभाग - सदस्य
6. प्रो० पीयूषकान्त दीक्षित, कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार - सदस्य
7. प्रो० पी०एन० शास्त्री, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली - सदस्य
8. प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री, पूर्व आचार्य एवं उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार - सदस्य
9. प्रो० राधेश्याम चतुर्वेदी, प्रोफेसर एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष, भाषा अध्ययन केन्द्र, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार। - सदस्य
10. प्रो० देवी प्रसाद त्रिपाठी, सचिव, महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, म०प्र० - सदस्य
11. डा० जीतराम भट्ट, सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी, झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली - सदस्य
12. श्री भगीरथ शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार, ग्राम व पोस्ट-अमृतपुर, नैनीताल - सदस्य
13. श्री सुभाष चन्द्र जोशी, शास्त्री, 26 चकशाह नगर, देहरादून - सदस्य
14. प्रो० विनीत घिल्डियाल, प्रोफेसर एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष, हे०नं०ब० गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल - सदस्य
15. प्रो० जया तिवारी, प्रोफेसर एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल - सदस्य
16. डा० ओमप्रकाश भट्ट, धर्मशास्त्रा, भट्ट निवास, निकट-श्रीराम भोजनालय, शांतिकुंज, हरिद्वार - सदस्य
17. डा० भोला झा, प्राचार्य, श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार - सदस्य
18. प्रो० ब्रजेश पाण्डेय, प्रोफेसर, संस्कृत अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - सदस्य
19. प्रो० सुनील कुमार जोशी, निदेशक, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, (ऋषिकुल परिसर) ऋषिकुल, हरिद्वार - सदस्य

20. प्राचार्य, श्रीशिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय, देहरादून – सदस्य
21. डा0 भुवन चन्द्र जोशी, प्राचार्य, माँ वाराही देवी संस्कृत महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत – सदस्य
22. श्री प्रताप सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, संस्कृत भारती, उत्तराखण्ड, श्री नारायण सेवा आश्रम दयानन्द नगरी, आर्य नगर ज्वालापुर, हरिद्वार – सदस्य
23. डा0 चन्द्र सिंह चौहान, पुरातत्वविद् एवं प्रभारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, अल्मोड़ा – सदस्य
24. डा0 महेशानन्द विद्यालंकार, अध्यक्ष, पतंजलि योगसाहित्य अनुसन्धान विभाग, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार। – सदस्य
25. कोषाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार – सदस्य
26. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार –सदस्य सचिव

उक्तानुसार गठित सामान्य समिति का कार्यकाल उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के पार्षद अन्तर्नियम के नियम-07 के अनुसार होगा।

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या- 493 (1)/XLII-1/2018-02(05)/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
8. सम्बन्धित नामित सदस्य।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
M. S. K.  
(महिमा)  
उप सचिव।